

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 21-04-2021

लूट के तीन अपराधी 2.3 किग्रा गांजा के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गोरखपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर के मार्ग दर्शन में व क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में दिनांक 17/04/2021 को ग्राम रामपुर गाँव में रोडपटरी पर स्व० रामकरन सिंह के आरा मशीन के पहले हुयी लूट के अनावरण हेतु प्र०नि० खोराबार व उनकी टीम को लगाया गया था। जिसके क्रम में आज दिनांक 21.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स बनससी मन्दिर के पास अपराध व अपराधियों के सम्बन्ध में बात चित कर रहे थे कि मुखबीर खास आया और बताया कि देवरिया बाईपास तिराहे पर तीन व्यक्ति काफी देर से खड़े हैं जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं जो पिछले कई दिनों से देवरिया बाई पास रामनगर कड़जहाँ मोतीराम अड़्डा बाजार में दिखाई दे रहे हैं मुखबीर की सूचना पर प्र०नि० खोराबार मय फोर्स के साथ देवरिया बाईपास पहुँचे जहाँ पर तीन व्यक्ति कही जाने के फिराक में वाहन का इंतजार कर रहे थे। माकूल शक होने के पश्चात प्र०नि० मय फोर्स द्वारा एकबारगी दबिश देकर उक्त तीनों व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना नाम मुख्तार अली पुत्र एहशान अली निवासी- शाहपुर मजरा गनीमत नगर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद दुसरे ने अपना नाम नूर अहमद पुत्र रहमत अली निवासी- शाहपुर मजरा गनीमत नगर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद तीसरे ने अपना नाम जोहर अली पुत्र आशिफ अली निवासी- शाहपुर मजरा गनीमत नगर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद बताया। उपरोक्त व्यक्तियों का जामा तलाशी से एक झोले के अन्दर प्लास्टिक में बधा हुआ 2.3 किग्रा नाजायज गांजा बरामद हुआ। लूट करने के संबंध में पूछने पर बताये कि हम तीनों लोग अपने गाँव से 14-15 दिन पहले गोरखपुर आये थे हम तीनों लोग सिटी के आस पास बाजार में घुमकर वृद्ध व्यक्तियों को अपनी बातों में फसा लेते हैं और मौका मिलते ही जबदस्ती सामान और पैसा छिन कर भाग जाते हैं और बसों में बैठकर यात्रियों के सामान की चोरी भी कर लेते हैं। दिनांक 08.04.2021 को बस स्टैण्ड थाना कैन्ट गोरखपुर के पास बस के अन्दर हम ही तीनों लोगों ने एक महिला के बैग का चैन तोड़कर पैसा व जेवरात चोरी कर लिये थे। उपरोक्त तीनों व्यक्ति मु०अ०सं० 157/2021 थाना खोराबार व मु०अ०सं० 192/2021 थाना कैन्ट में अभियुक्त हैं, जिसे कारण गिरफ्तार बताते हुए समय करीब 10.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया तथा उक्त बरामदगी के आधार थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 161/2021 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम पता

1. मुख्तार अली पुत्र एहशान अली निवासी- शाहपुर मजरा गनीमत नगर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
2. नूर अहमद पुत्र रहमत अली निवासी- शाहपुर मजरा गनीमत नगर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद
3. जोहर अली पुत्र आशिफ अली निवासी- शाहपुर मजरा गनीमत नगर थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान—21/04/2021 समय 10.30 , देवरिया बाईपास व फासला 1 कि०मी० पूर्व थाना क्षेत्र खोराबार।

बरामदगी – 2.3 कि०ग्रा० नाजायज गांजा, 13100/- रुपया नकद

अपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 157/2021 धारा 392,411 भा०द०वि० थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. मु०अ०सं० 192/2021 धारा 379,411 भा०द०वि० थाना कैन्ट जनपद गोरखपुर
3. मु०अ०सं० 161/2021 धारा 8/20 NDPS Act थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
4. मु०अ०सं० 754/2020 धारा 399,402 भा०द०वि० थाना चिनहट जनपद लखनऊ
5. मु०अ०सं० 755/2020 धारा 41,411 भा०द०वि० थाना चिनहट जनपद लखनऊ
6. मु०अ०सं० 758/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी

- 1 नासिर हुसैन प्रभारी निरीक्षक खोराबार, गोरखपुर
- 2 उ०नि० उ०नि० चन्दन कुमार सिंह थाना खोराबार, गोरखपुर।

- 3.का0 का0 मुकेश कुमार थाना खोराबार, गोरखपुर
- 4.का0 सुरेन्द्र यादव थाना खोराबार, गोरखपुर
5. का0 नन्दन शर्मा थाना खोराबार, गोरखपुर
6. का0अजय कुमार थाना खोराबार, गोरखपुर